```
Summative Assessment-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Choose True and False statements.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क एसिटिक अमु का साधारण नाम क्या हैं ?
                                                                                                                                                       i) Acetic Acid (ii) Lactic Acid (iii) Formic Acid (iv) None of these
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क. प्रकाश संशलेषण में सौर उर्जा रासायनिक उर्जा में रूपातरण हो जाता है।
                                               Subject: Science
                                                                                                                                                            6. निमिखित में से कौन सा मौसम का घटक नहीं हैं।
                                                     Class: 7<sup>th</sup>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        In photosynthesis solar energy is converted into chemical energy.
                                                                                                                                                      क. तापमान ख. आद्रता ग. वर्षा घ. निदयाँ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ख. मंड का पाचन महं से प्रारम्भ होता है।
                                        Time: 3 Hrs. M.M: 35
                                                                                                                                                       Which of the following is not component of weather?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Digestion of starch starts in the mouth.
सामान्य निर्देश
                                                                                                                                                       i. Temperature ii. Humidity iii. Rain iv. Rivers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ग. तापमान में पारा घात का उपयोग किया जाता है।
(General Instruction)
                                                                                                                                                                  निमिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की सम्भावना नहीं होती I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mercury metal is used in thermometer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         घ. नाईटिक अम्र लाल लिटमस को नीला कर देता हैं।
                                                                                                                                                       क. चेन्नई ख. मेंगलरू ग. अमतसर घ. परी
1.सभी प्रश्र अनिवार्य हैं।
                                                                                                                                                       Which of the following places has minimum possibilities of cyclones?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nitric Acid changes red litmus into blue
2.प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक साथ करे I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ड़. बर्तनों. खिलौनों और मर्तियाँ बनाने के लिये चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता हैं।
                                                                                                                                                       i. Chennai ii. Mangaluru iii. Amritsar iv. Puri
3.सभी प्रश्न के अंक सामने दिए गए है I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        The utensils, toys, and statues are prepared from clayey soil
च. अवतल दर्पण सदेव वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता हैं |
                                                                                                                                                                 प्रकाश किस रेखा के अनदिश गमन करता हैं।
All questions are compulsory.
                                                                                                                                                       क. मडी हुई रेखा ख. सरल रेखा ग. किरण घ.समानांतर रेखा
Attempt all parts of each question together.
Marks of each question are given against question.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Concave mirror always forms real image.
                                                                                                                                                       In which path light travels?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         प्र<sub>0</sub> 4 कालम A का कालम B से मिलान करे
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (6 \times 0.5 = 3)
                                                                                                                                                       i. Curved line ii. Straight line (iii) Ray (iv) Parallel line
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Match column A with column B.
                                                                                                                                                            9. कीटो को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादक —
Section- A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             कालम Aकालम B
                                                                                                                                                       क. अमरबेल ख. गडहल ग. घटपर्णी घ. गलाब
y_0 1. सही विकल्प चिनए
                                                                                                         (10 \times 0.5 = 5)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              कैसे करेगें ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क.क्रोरोफिल
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              क गहरे रंग की
Choose the correct option.
                                                                                                                                                       Plant that catches insects to eat-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Chlorophyll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dark coloured
                                                                                                                                                       i. Cuscuta ii. Hibiscus iii. Pitcher plant iv. Rose
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ख.लालां ग्रंधि
  . निम्नलिखित में से कौन भोजन का घटक नहीं हैं
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ख. पत्ती
                                                                                                                                                           10 जल धारण करने की सबसे अधिक श्रमता किस मिट्टी की होती हैं ?
क) कार्बोहाइडेट (ख) वसा (ग) खनिज (घ) पत्थर
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Salivary gland
                                                                                                                                                       क. बर्ला मुदा ख. मुण्मय मुदा ग. दमटी मुदा घ. बाल और दमट के मिश्रण में
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ग.शहतत की पत्तियाँ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ग लाला- रस स्त्रावित करना
Which of the following is not a component of food?
                                                                                                                                                       The water holding capacity is highest in.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Secretion of saliva
i) Carbohydrate (ii) Fats (iii) Mineral (iv) Stone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Leaves of mulberry
                                                                                                                                                       i) Sandy soil ii) Clayey soil (iii) Loamy soil (iv) Mixture of sand and loam.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         घ.हल्के रंग के कपड़े पहनना
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              घ. रेशम किट का भोजन
                                                                                                                                                       प्रo 2 रिक्त स्थान की पर्ति कीजिए
                                                                                                                                                                                                                                                           (6 \times 0.5 = 3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             प्र<sub>0.7</sub> उत्तर दो ।
 2. जल का अवशोषण मख्यत: किस अंग द्वारा होता हैं।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Time to wear light colored clothes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Food of silk- worm
                                                                                                                                                       Fill in the blanks.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Coloured clothes
                                                                                                                                                       क पादको द्वारा संशलेषित खाध का भण्डारण
                                                                                                                                                                                                                                       के रूप में किया जाता हैं।
क) आमाशय (ख) ग्रासिका (ग) क्षुद्रात्र (घ) बृहदांत्र
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ड परजीवी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ङ.मुदा की ऊपरी परत
                                                                                                                                                       In plants prepared food is stored in the form of
Which organ of our body absorbs water?
                                                                                                                                                       ख अमीबा अपने भोजन का पाचन
                                                                                                                                                                                                                          में करता हैं।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Upper most layer of soil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Parasite
 i) Stomach (ii) Oesophagus (iii) Small intestine (iv)Large intestine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              च गर्मियाँ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          च.अमरबेल
                                                                                                                                                        Amoeba digests its food in
                                                                                                                                                       ग काटी गई ऊन की सफाई की प्रक्रिया को
                                                                                                                                                                                                                                  कहते है ।
  . जंतओं से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहते हैं I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cuscuta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Summer
क) ऊनी रेशे (ख) जतांव रेशे (ग) पश्मीना (घ) रेशेनुमा रेशे
                                                                                                                                                       The process of cleaning sheared wool is called
                                                                                                                                                            ध. ताप की डिग्री
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         भाग- ग
                                                                                                                                                                                                       में मापते हैं।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ਸ਼<sub>0</sub>8
 The fibers which are obtained from animals?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Section- C
                                                                                                                                                       The temperature is measured in
ड. दीर्घ अवधि के मौसम का औसत
 i) Woolen fiber (ii) Animal fiber(iii) Pashmina (iv) Fibrous fiber
                                                                                                                                                                                                                                 कहलाता हैं ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         y_0 = y_0
                                                                                                                                                        The average weather pattern taken over a long time is called
   मानव शरीर का समान्य तापमान कितना होता है ?
                                                                                                                                                            च जिस प्रतिबिम्ब को पर्दे पर न प्राप्त किया जॉ सके वह
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Very short Answer type questions
                                                                                                                                                                                                                                                         कहलाता है ।
क. 35°C ख. 40°C ग. 37°C घ 36°C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती हैं?
                                                                                                                                                        The image which cannot be obtained on a screen is called
        What is the normal temperature of a human body?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Why do living organisms need food?
                                                                                                                                                                                                               भाग- ख
 . 35°C ii. 40°C iii. 37°C iv. 36°C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ख.O.R.S. का परा नाम लिखो ?
                                                                                                                                                                                                            Section- B
      5. दही में पाया जाने वाला अम कौन सा हैं ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Write full form of O.R.S.
क) एसिटिक अम्र (ख) लैक्टिक अम्र (ग) फोर्मिक अम्र (घ) इनमें से कोई नही।
                                                                                                                                                       प्र0 3 सत्य व असत्य कथनों का चयन कीजिए (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ग.रेशमकीट पालन किसे कहते हैं ?
Which acid is present in the curd?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         What is sericulture?
```

What is the common name of acetic acid? ख किस प्रकार का लैंस सदैव आभासी पिबिस्ब बनाता हैं ? Which type of lens always forms virtual image? प्र. 6 प्रश्नों के उत्तर दो । Answer these questions 1.दीर्घरोम क्या हैं ? ये कहाँ पाए जाते हैं व उनके कार्य क्या है ? What are villi? What is their location and function? 2.ऊष्माचालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए Give two examples each of conductors and insulators of heat. 3.क्या आसुत जल अम्लीय/क्षारकीय /उदासीन होता हैं ? आप इसकी पृष्टि कैसे करेगें ? Is the distilled water acidic/basic/neutral? How would you verify it? 4.उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकृलित हैं ? How do elephant living in the tropical rain forest adapt itself? 5.यदि आपर्क गावं अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पडोसियों की सहायता How will you help your neighbors in case cyclone approaches your village/town? 6. समझाइएं की मदा कैसे बनती हैं ? Explain how soil is formed. भाग- घ Section- D Answer these questions. ा.हरे पादको में खाघ संश्लेषण प्रक्रम का विवरण कीजिए Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. 2.प्रयोगशाला तापमापी तथा डाक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताए तथा अंतर लिखिये। Write the similarities and differences between laboratory thermometer and laboratory. मुदा का अनप्रस्थ काट का चित्र बनाए और विभिन्न परतो को नामंकित कीजिए। Sketch the cross section of soil and label the various layers. समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब के अभिलाश्ण लिखियए। State the characteristics of the image formed by a plane mirror.

 $(6 \times 1.5 = 9)$

 $(2 \times 2 = 4)$

 $(3 \times 1 = 3)$